



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2008/कार्तिक 19, 1930

No. 401]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2008/KARTIKA 19, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2008

बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत '6.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2009' की पुनः खरीद

फा. सं. 4 (6)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008.— भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच दिनांक 25 मार्च, 2004 को बाजार स्थिरीकरण योजना आरंभ करने हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए "6.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2009" (जिसे इसमें इसके बाद सरकारी स्टॉक कहा गया है) की पुनः खरीद अधिसूचित करती है।

1. पात्रता और राशि

सरकारी स्टॉक की पुनः खरीद बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर 17 नवम्बर, 2008 को की जाएगी और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के अनुसार 12 नवम्बर, 2008 को संपन्न होने वाली पुनः खरीद नीलामी में स्वीकृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस विधि से पुनः खरीद किए गए सरकारी स्टॉक का मोचन समय से पहले किया जाएगा। समयपूर्व मोचन की कुल राशि पुनः खरीद नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्तावों की सीमा तक सीमित होगी।

2. सरकारी स्टॉक की वापसी अदायगी

पुनः शोधित सरकार स्टॉक का भुगतान भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उस मूल्य अथवा मूल्यों पर किया जाएगा जिनके प्रस्ताव पुनः खरीद नीलामी में स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस भुगतान में अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से अर्थात् 5 अक्टूबर, 2008 से 16 नवम्बर, 2008 तक सरकारी स्टॉक के सफल प्रस्ताव के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत ब्याज भी शामिल होगा।

3. ब्याज

पुनः शोधित सरकारी स्टॉक पर समयपूर्व शोधन की तारीख अर्थात् 17 नवम्बर, 2008 से ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पहले जारी की गई तदनुसूची अधिसूचना/अधिसूचनाओं के अनुसार सरकारी स्टॉक की पुनःशोधित न की गई बकाया राशि पर 6.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5 अक्टूबर और 5 अप्रैल को मूल पुनःशोधन की तारीख अर्थात् 5 अप्रैल, 2009 तक ब्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

4. सांविधिक प्रावधान

इस अधिसूचना के तहत प्रावधान न किए गए किसी ऐसे मामले के संबंध में सरकारी स्टॉक का नियंत्रण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके तहत निर्मित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 और भारत सरकार द्वारा पहले जारी की गई तदनुसूची अधिसूचना/अधिसूचनाओं द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
एल. एम. वास, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2008

Repurchase of '6.65 per cent Government Stock, 2009' under Market Stabilization Scheme

F. No. 4(6)-W&M/2008.—As per the provisions contained in the Memorandum of Understanding between the Reserve Bank of India and the Government of India dated March 25, 2004 for launching of the Market Stabilization Scheme, Government of India hereby notifies repurchase of '**6.65 per cent Government Stock 2009**' (hereinafter called '**Government Stock**') for an aggregate amount of Rs.5,000 crore (nominal) under the Market Stabilization Scheme.

1. Eligibility and Amount

The Government Stock shall be repurchased on **November 17, 2008** from the banks and financial institutions at the price offered by them and accepted by Reserve Bank of India in the repurchase auction to be held on **November 12, 2008** as per the scheme. The Government Stock repurchased in this manner by Government of India shall get prematurely redeemed. The aggregate amount of premature redemption shall be limited to the extent of aggregate offers accepted by Reserve Bank of India in the repurchase auction.

2. Repayment for the Government Stock

The payment for the redeemed Government Stock shall be made by the Government of India on **November 17, 2008** at the price or prices offered by banks and financial institutions whose offers in the repurchase auction have been accepted. The payment shall also include accrued interest on the nominal value of the successful offer of the Government Stock from the date of last coupon payment i.e. from **October 5, 2008 to November 16, 2008**.

3. Interest

Interest shall cease to accrue on the redeemed Government Stock from the date of premature redemption i.e. **November 17, 2008**. On the unredeemed outstanding amount of the Government Stock, interest at the rate of 6.65 per cent per annum shall be paid half yearly on **October 5 and April 5** till the date of original redemption, i.e. **April 5, 2009** in accordance with the earlier corresponding Notification(s) issued by Government of India.

4. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Government Stock shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations 2007 framed there under and the earlier corresponding Notification(s) issued by the Government of India.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2008

बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत '5.87 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2010' की पुनः खरीद

फा. सं. 4 (6)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008(i).—भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच दिनांक 25 मार्च, 2004 को बाजार स्थिरीकरण योजना आरंभ करने हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत **5,000 करोड़ रूपए (अंकित)** की कुल राशि के लिए **'5.87 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2010'** (जिसे इसमें इसके बाद सरकारी स्टॉक कहा गया है) की पुनः खरीद अधिसूचित करती है।

1. पात्रता और राशि

सरकारी स्टॉक की पुनः खरीद बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर **17 नवम्बर, 2008** को की जाएगी और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के अनुसार **12 नवम्बर, 2008** को संपन्न होने वाली पुनः खरीद नीलामी में स्वीकृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस विधि से पुनः खरीद किए गए सरकारी स्टॉक का मोचन समय से पहले किया जाएगा। समयपूर्व मोचन की कुल राशि पुनः खरीद नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्तावों की सीमा तक सीमित होगी।

2. सरकारी स्टॉक की वापसी अदायगी

पुनः शोधित सरकार स्टॉक का भुगतान भारत सरकार द्वारा दिनांक **17 नवम्बर, 2008** को उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उस मूल्य अथवा मूल्यों पर किया जाएगा जिनके प्रस्ताव पुनः खरीद नीलामी में स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस भुगतान में अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से अर्थात् **2 जुलाई, 2008** से **16 नवम्बर, 2008** तक सरकारी स्टॉक के सफल प्रस्ताव के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत ब्याज भी शामिल होगा।

3. ब्याज

पुनः शोधित सरकारी स्टॉक पर समयपूर्व शोधन की तारीख अर्थात् **17 नवम्बर, 2008** से ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पहले जारी की गई तदनुसूची अधिसूचना/अधिसूचनाओं के अनुसार सरकारी स्टॉक की पुनः शोधित न की गई बकाया राशि पर **5.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष** की दर से **2 जुलाई** और **2 जनवरी** को मूल पुनः शोधन की तारीख अर्थात् **2 जनवरी, 2010** तक ब्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

4. सांविधिक प्रावधान

इस अधिसूचना के तहत प्रावधान न किए गए किसी ऐसे मामले के संबंध में सरकारी स्टॉक का नियंत्रण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके तहत निर्मित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 और भारत सरकार द्वारा पहले जारी की गई तदनुसूची अधिसूचना/अधिसूचनाओं द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

एल. एम. वास, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2008

Repurchase of '5.87 per cent Government Stock, 2010' under Market Stabilization Scheme

F. No. 4(6)-W&M/2008(i).—As per the provisions contained in the Memorandum of Understanding between the Reserve Bank of India and the Government of India dated March 25, 2004 for launching of the Market Stabilization Scheme, Government of India hereby notifies repurchase of '5.87 per cent Government Stock 2010' (hereinafter called 'Government Stock') for an aggregate amount of Rs.5,000 crore (nominal) under the Market Stabilization Scheme.

1. Eligibility and Amount

The Government Stock shall be repurchased on **November 17, 2008** from the banks and financial institutions at the price offered by them and accepted by Reserve Bank of India in the repurchase auction to be held on **November 12, 2008** as per the scheme. The Government Stock repurchased in this manner by Government of India shall get prematurely redeemed. The aggregate amount of premature redemption shall be limited to the extent of aggregate offers accepted by Reserve Bank of India in the repurchase auction.

2. Repayment for the Government Stock

The payment for the redeemed Government Stock shall be made by the Government of India on **November 17, 2008** at the price or prices offered by banks and financial institutions whose offers in the repurchase auction have been accepted. The payment shall also include accrued interest on the nominal value of the successful offer of the Government Stock from the date of last coupon payment i.e. from **July 2, 2008** to **November 16, 2008**.

3. Interest

Interest shall cease to accrue on the redeemed Government Stock from the date of premature redemption i.e. **November 17, 2008**. On the unredeemed outstanding amount of the Government Stock, interest at the rate of **5.87** per cent per annum shall be paid half yearly on **July 2** and **January 2** till the date of original redemption, i.e. **January 2, 2010** in accordance with the earlier corresponding Notification(s) issued by Government of India.

4. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Government Stock shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations 2007 framed there under and the earlier corresponding Notification(s) issued by the Government of India.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.